

October 2, 2020

Asst. Vice President, Listing Deptt.,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re: Newspaper advertisement- Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding the issue of duplicate share certificate in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

Kindly note that duplicate share certificate will be issued to the concerned shareholder in case no objection is received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Limited



(Neerja Sharma)
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Encl.: As above

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED
DDL2000PLC105817
 Address: D-174, GF, Okhla Industrial Area,
 New Delhi-110020.
 111 Fax: 011-2622 9671

cs.in, Email: tlogs@tigerlogistics.in
FOR THE 20TH ANNUAL GENERAL MEETING
ON 29.09.2020 AT 1:00 P.M THROUGH VIDEO
CONFERENCE BY AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM").

Businesses as set out in item no. 01 to 03 in the
 Notice, duly approved by the members with requisite
 majority, approved due to unavailability of requisite majority,
 proceedings of 20th Annual General Meeting of

20th AGM.

Details	
29.09.2020	
on record date	6039
at the meeting either in person	35
	6
	29

Refer www.tigerlogistics.in to get more details about

By the Order of board of directors
 For Tiger Logistics (India) Limited
 Sd/-
 Vishal Saurav Gupta
 Company Secretary & compliance officer

बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
 India's International Bank

Regional Stressed Asset Recovery Branch
 "Vijaya Building" Lower Ground Floor,
 17 Barakhamba Road, New Delhi-110001
 Ph.: 011-23313242, 011-23312309

[Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]
POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 28.06.2018 calling upon the borrower **M/s Adwin Dairy Organics through its proprietor Mr. Ashish Dahiya S/o Bhoop Singh Dahiya** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 60,57,774.00 (Rupees Sixty lakhs Fifty seven thousand seven hundred and seventy four only)** within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of Section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 on this **25th day of September of the year 2020.**

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount of **Rs. 60,57,774.00 (Rupees Sixty lakhs Fifty seven thousand seven hundred and seventy four only)** and interest, cost and expenses thereon less recovery if any.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (B) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

All the part and parcel of the khewat no. 369/333 min, Khatoni 486, Rect & killa Nos 73/14/2(2-11), 17/1/2(2-15) Village Hasangarh, Sampala, Dist-Rohtak, Haryana, Bounded as : North - as per title deed, South - as per title deed, East - as per title deed, West - as per title deed

Date : 25-09-2020, Place : New Delhi Authorized Officer, Bank of Baroda

Hero MotoCorp Limited
 Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road,
 Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070
 CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-46044220
 Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarialho@heromotocorp.com
 Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES
 Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ("Company") are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to request received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificate in lieu of the said original Share Certificate (Face Value Rs.2/-) in their favour:

Folio No.	Shareholders Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares
HML0064646	PETER SEBASTIAN XAVIER FERNANDES	Rs.2/-	46379451 - 46380070	511483	620
	MARIA MAURICIA ANTINETTE FERNANDE	Rs.10/-	3248466-3248515 16194393-16194402 16194403-16194404 20809169-20809218 20809219-20809230	64979 231410 231411 338939 338940	50 10 02 50 12

Any person having objections to issue of duplicate Share Certificate, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the "Secretarial Department" at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd.
 Sd/-
 Neerja Sharma
 Company Secretary & Chief Compliance Officer
 Place : New Delhi
 Date : 01/10/2020

बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
 India's International Bank

Zonal Stressed Asset Recovery Branch : Meher Chamber, Ground floor, Dr. Sunderlal Behl Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001, Phone: 022-43683807, 43683808, Fax: 022-43683802. Email: arbmom@bankofbaroda.co.in

APPENDIX IV-A [Proviso to Rule 8(6)]

Sale notice for sale of Immovable properties

E-Auction sale notice for sale of Immovable and moveable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Mortgaged/ Charged property to the Secured Creditors, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditors, will be sold on "As is what is" and "Whatever there is" and "Without recourse basis" for recovery of dues of secured creditors from the below mentioned account/s. The details of Borrower/s / Guarantor/s / Secured Asset/s / Dues / Reserve Price/ e-Auction date and time, EMD and Bid Increase Amount are detailed below-

Sr. No.	Name & Address of Borrower/s & Guarantors/s	Description of the immovable/ Movable property with known encumbrances, if any	Total Dues	Date & Time of E-auction	(1) Reserve Price (2) EMD, (3) Bid Increase Amount	Status of Possession (Constructive / Physical)	Property Inspection date & Time and Contact Details
1	M/s Rolta Private Limited Guarantors 1) M/s Rolta Infrastructure and Technology Services Private Limited 2) M/s Rolta Shares and Stock Private Limited 3) M/s Aditya Investment and Finance Corporation 4) Mr. Kamal Krishna Singh 5) M/s Rolta India Limited.	Built up Free Hold Residential-cum-commercial property bearing No.A-55 (Block-A & Plot No 55).With all roof/terrace rights,Built on land area measuring 1026.67 Sq.Yds. or 858.42 Sq.Mt., Situated at Kailash Colony,Lala Lapat Rai Marg, Opp. Metro Pillor No.93 (Main Nehru Place walk Road), New Delhi-110048. Encumbrance known to bank: Nil	Total Dues- Rs. 257,17,14,084.20/- Plus interest and cost from 31.05.2019. Less recovery upto date.	17.11.2020 1300 Hrs to 1700Hrs	1) Rs.5341.00 lacs 2)Rs.534.10 lacs 3)Rs.1.00 Lakh	Physical Possession	27.10.2020 11.00 am to 1.00 pm. Mr.VMS RAJA AGM 022-43683832, 022-43683807 9884772890

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> and <https://fbapl.in>. Also, prospective bidders may contact the authorized officer on Tel No.022-43683801

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002
 read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrowers / guarantors are hereby notified that they are entitled to redeem the securities by paying the outstanding dues / costs / charges and expenses at any time before the sale is conducted, failing which the property will be auctioned / sold and the balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

Date : 01.10.2020
 Place : Mumbai

Sd/-
 Authorized Officer
 Bank of Baroda

"IMPORTANT"
 Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

This is a public announcement for information purposes only and is not a Prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED

Our Company was incorporated as "RailTel Corporation of India Limited" on September 26, 2000, as a public limited company under the Companies Act, 1956, and the certificate of incorporation was issued by the Assistant Registrar of Companies, N.C.T. of Delhi and Haryana. Our Company received its certificate for commencement of business from the Deputy Registrar of Companies, N.C.T. of Delhi and Haryana on October 9, 2000. For details of changes in the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 142 of the draft red herring prospectus dated September 29, 2020 ("DRHP").

Registered and Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office Block, Tower-2, East Kidwai Nagar, South Delhi, New Delhi 110023, India. Contact Person: Jasmeet Singh Marwah, Company Secretary and Compliance Officer; Telephone: +91 11 2290 0600; E-mail: cs@railtelindia.com; Website: www.railtelindia.com; Corporate Identity Number: U64202DL2000GO107905

OUR PROMOTER: THE PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF RAILWAYS, GOVERNMENT OF INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") THROUGH AN OFFER FOR SALE BY THE PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF RAILWAYS, GOVERNMENT OF INDIA (THE "SELLING SHAREHOLDER"), FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹ [●] MILLION (THE "OFFER").

SUBJECT TO RECEIPT OF NECESSARY APPROVALS FROM THE GOVERNMENT OF INDIA ("GOI"), UP TO [●] EQUITY SHARES MAY BE RESERVED FOR ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS EMPLOYEE RESERVATION PORTION (IF ANY) IS REFERRED TO AS THE NET OFFER. THE OFFER WILL COMPRISE A NET OFFER OF UP TO 86,653,369 EQUITY SHARES AND THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION OF UP TO [●] EQUITY SHARES. THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]% RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

